

∅ INFO EDGE ∅

INFO EDGE (INDIA) LTD.

October 1, 2018

Department of Corporate Services, Bombay Stock Exchange Ltd, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001	Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd, Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai – 400 051
Scrip Code: 532777	Scrip Code: NAUKRI

**Sub.: Intimation of Publication of Notice of the Board Meeting**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of the newspaper publication of Notice of the Board Meeting of the Company to, inter-alia, consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2018 published in the following editions: -

- Business Standard (National Daily newspaper) on October 1, 2018
- Business Standard Hindi (Daily newspaper of the State) on October 1, 2018

Submitted for your information & records.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Info Edge (India) Ltd.

  
**MM Jain**  
**Company Secretary**

Encl: as above



2 कंप

नई दिल्ली | 1 अक्टूबर 2018 सोमवार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

11. दावे
12. अंतरिम प्रस्ताव धारा 21 की उप-धारा के तहत ऋणदाताओं के तहत ऋणदाताओं को
13. एक वर्ग में ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के रूप में ऋणशोधनक्रम (प्रत्येक वर्ग के)
14. (ए) संबंधित फंड (बी) प्राधिकृत उपलब्ध है:

## infoedge

इंफो एज (इंडिया) लिमिटेड

CIN: L74899DL1995PLC068021 पंजी कार्यालय जीएफ-12ए, 94, मेघदूत, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 निगमित कार्यालय: बी-8, सेक्टर-132, नोएडा-201304 (उत्तर प्रदेश)  
टेली: 0120-3082000, फ़ैक्स: 0120-3082095  
वेब: <http://www.infoedge.in/>, email: [investors@naukri.com](mailto:investors@naukri.com)

### सूचना

सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर) के विनियम 47(1) के अनुपालन में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 30 सितंबर, 2018 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए कंपनी के अनकंक्षित वित्तीय परिणामों के विचार करने के साथ अनुमोदन के लिए कंपनी के निगमित कार्यालय में मंगलवार, 30 अक्टूबर, 2018 को आयोजित की जाएगी। वैधानिक अकंक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा का विषय। एलओडीआर के विनियम 46(2) और 47(2) के अनुपालन में, उक्त बैठक का विवरण कंपनी की वेबसाइट अर्थात् <http://www.infoedge.in/> और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट <http://www.bseindia.com/> और <http://www.nseindia.com/> पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार द्वारा  
इंफो एज (इंडिया) लि. के लिए  
(एमएम जैन)  
सीवीपी-सचिव व कंपनी सचिव

एतद्वारा सूचित कि 27.09.2018 (28.09.2018) तक आयनिक शल्स (इंफो एज) प्रक्रिया शुरू करने ऋणदाताओं को एत 2018 तक या पहले वित्तीय ऋणदाताओं होंगे। कामगार व कर्जाक व इलेक्ट्रॉनिक क्रमशः प्रचालनात्मक कर्मचारियों के समूह भारतीय ऋणशोधन प्रस्ताव प्रक्रिया के नि दावे जमा किए जा ऋणदाताओं के लिए उपमानी लगाया जाए

दिनांक : 29.09.2018  
स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 29 सितंबर, 2018  
स्थान : नोएडा

बजाज की कीमत जंग में दूसरी कंपनियां नहीं

शैली सेठ मोहिले मुंबई, 30 सितंबर

मोटरसाइकल बाजार में बजाज ऑटो द्वारा शुरू की गई कीमत संबंधी जंग में प्रतिस्पर्धी कंपनियां शामिल होती नहीं दिख रही हैं। विश्लेषकों का मानना है कि पुणे की यह कंपनी अपनी स्थिर बिक्री और बाजार हिस्सेदारी के बल पर अन्य कंपनियों को अपने पीछे रख सकती है। घरेलू बाजार में बजाज ऑटो की मोटरसाइकल बिक्री चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीने के दौरान पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 32 फीसदी बढ़कर 11.4 लाख हो गई। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सायम के अनुसार, बजाज ऑटो की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 16.87 फीसदी हो गई है जो पिछले साल की समान अवधि में 14.56 फीसदी रही थी।

अपनी बिक्री को रफ्तार देने के लिए होंडा मोटरसाइकल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने 17 सितंबर को 'शगुन कैशबैक' के नाम से एक कैश-बैक योजना की घोषणा की थी। इसके तहत ऐक्टिवा एसजी को छोड़कर अन्य सभी मॉडलों पर 1,100 रुपये की नकद वापसी की पेशकश की जा रही है। यह योजना 30 सितंबर तक लागू है। कीमत को लेकर संभावित जंग के लिए मैदान तैयार करते हुए बजाज ऑटो ने मार्च में अपने सभी मॉडलों के दाम घटा दिए थे जिसमें प्रवेश स्तर की बाइक सीटी100 भी शामिल है। बाजार में सीटी100 की टक्कर हीरो स्प्लेंडर और पैशन से है। इसके दाम घटाए जाने के बाद बिक्री 20,000 से बढ़कर 75,000 वाहनों तक पहुंच गई है।

### मैगमा हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजी / कार्यालय : 8 सत नंबर, इस्ट ऑफ कलाश, नई दिल्ली-110065

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8(1)) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जैसे कि, उपरोक्त कारपोरेट कार्यालय के मैगमा हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय अस्तित्वों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहाँ आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे यथा वर्णित मांग सूचना जारी की थी जिसमें कर्जदारों से सूचना में उल्लिखित राशि को उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया। कर्जदारों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर कर्जदारों और सर्व सामान्य को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों और सर्व जन को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेनदेन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन राशि और इस पर ब्याज के लिए मैगमा हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समयावधि में अधिनियम की धारा-13 की उप-धारा (b) के प्रावधानों में कर्जदारों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। कब्जे में ली गई संपत्ति का विवरण निम्नवत् है:

क्र. सं.	कर्जदार के नाम	संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख	सांघिक मांग सूचना की तारीख	मांग सूचना में राशि (₹)
1.	अजुल कुमार पपेल (कर्जदार) एवं कुसुम (सह-कर्जदार) ऋण खाता नं. (HM/0031/H/16/100021)	मैन 33 फुटा रोड की आबादी, वार्ड नं. 90, कबीर नगर, बाबरपुर गांव के क्षेत्र में, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110094 स्थित संपत्ति प्रथम तल बिना छत अधिकार और टेरेस अधिकारों के, एरिया माप 39.29 वर्ग मीटर (47 वर्ग गज) संपत्ति नं. ए-45, खसरा नं. 45 में से, इस पर निर्मित निर्माण और छत स्तर तक अधिकार सहित, भूतल से कॉमन प्रदेश, रास्ते सहित व वॉटर टैंक इत्यादि की मरम्मत के लिए टॉप तल तक जाने के अधिकार सहित, भूतल पर दोपहिया पार्किंग व संपत्ति के नीचे की भूमि में बराबर स्वामित्व अधिकार सहित। डीड/ए/एमसीडी रेजो. सं. 2104/एसटीजी, दिनांकित 05/06/1982	28.09.2018	30.03.2018	₹. 20,76,643.82/- (रुपये बीस लाख छिहत्तर हजार छः सौ तैंतालीस और बयासी पैंसा मात्र) और इस पर 11.75% वार्षिक की दर से भावी ब्याज

स्थान : दिल्ली  
दिनांक : 01.10.2018

हस्ता./-  
प्राधिकृत अधिकारी  
हिते मैगमा हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड

1961 ("H...  
holders...  
ce will be...  
FEMA 20...  
ircular N...  
er from N...  
is not rec...  
with the...  
is ("OCBs...  
date of tl...  
and imple...  
come ap...  
supt of su...  
loring in t...  
rior to...  
for the se...  
also choot...  
ders shou...  
acquisiti...  
or cond...  
h approv...  
public an...  
ion set ou...  
may do si...  
quiere o...  
in conne...  
ak Dash...  
and; Ind...  
ers have...  
ne to the...  
LEGAL  
Khaitan...  
One Indi...  
13th Flo...  
841 Ser...  
Mumbai...  
d/-  
Somani...  
or

बिज़नेस स्टैंडर्ड  
द इंडियन एक्सप्रेस  
उ. प्र. से मुद्रित

पाठक संपादन  
संस्था

बिज़नेस स्टैंडर्ड  
पैरागन सेंट

बिस्केलेमर., बिज  
बाजारों, कॉर्पोरेट  
प्रवास किया जा  
वास्तविक घटना  
पाठकों द्वारा किए  
स्टैंडर्ड कोई जिम्मे  
बिज़नेस स्टैंडर्ड  
स्टैंडर्ड न तो जुड़  
भी प्रकार का द  
मै 0 बिज़नेस स्टैंड  
अनुमति लिए बा  
या प्रसारण नि  
अनधिकृत कार्य